

CRESCENT PUBLIC SCHOOL

Holiday Homework (2024 -25)

Std – X

English

1. Write 20 literary device relevant to your textbook with examples.
2. Prepare a project report on life and history of Robert Frost with two examples of short poem.
3. Learn and revise all the portion taught in the class.

Hindi

1. हिंदी परियोजना कार्य – भारत के आठ प्रमुख वैज्ञानिक संकेत-बिंदू – i. बम्बू फाइल में हिंदी परियोजना कार्य करना है
ii. बम्बू फाइल में कुल 10 छोटा वाला चार्ट पेपर रखना है।
Ruled sheet में लिखने का काम होगा और प्लेन शीट में चित्र बनाने का काम होगा।
iii. बम्बू फाइल के प्रथम पृष्ठ में स्कूल का नाम, हिंदी परियोजना कार्य, अपना नाम, वर्ग सत्र एवं विषय शिक्षक का नाम लिखना है।
iv. दूसरे पृष्ठ में भारत के आठ वैज्ञानिकों के नाम लिखना है।
v. सात वैज्ञानिकों का संक्षिप्त परिचय देना है और कोइ एक वैज्ञानिक के बारे में विस्तार से लिखना है।
vi. Plain sheet में सात भारतीय वैज्ञानिकों के चित्र पेस्ट करना है।
vii. 20.06.2024 को अपना प्रोजेक्टवर्क विषय शिक्षक के पास जमा कर देना है।

2. 'नेताजी का चश्मा' पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
3. 'सुरदास के पद' का शब्दार्थ एवं सरलार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
4. वाच्य किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए।

Sanskrit

1 दश संस्कृत कवीनां संक्षिप्तं परिचयम् चित्र सहितम् लिखत। तस्य ग्रथानां नाम अपि लिखत।

- बम्बू फाइल में करके लाना है।
- पहले पेज में संस्कृत प्रकल्पम् कार्यम् तथा अपना परिचय सजाकर लिखना है।
- दूसरे पेज में विषय लिखना है।

- तीसरे पेज से कवियों का संक्षिप्त परिचय चित्र के साथ संस्कृत में लिखना है।

Maths

1. To draw the graph of quadratic polynomial

$$f(x) = x^2 - 4x - 5$$

$$f(x) = x^2 - 4$$

$$f(x) = 9 - x^2$$

2. To verify whether the following pair of linear equation in two variables are consistent or inconsistent

i. $x + 2y = 3$

$2x + y = 9$

ii. $3x + y = 2$

$6x + 2y = 4$

iii. $2x + 3y = 6$

$2x + y = 7$

3. Write about any two mathematicians and their contribution in field on mathematics.

Science

(Physics)

1. Draw all ray diagram of Concave and Convex mirror and lens in small chart paper.

(Chemistry)

1. Balance the given Chemical equations
2. Write five examples of redox reaction.

(Biology)

1. Draw and label the diagram of

- i. Digestive System
- ii. Respiratory System
- iii. Circulatory System
- iv. Excretory System

Make a model of any one.

2. Draw the Photosynthesis process activity, diagram (in file).

i. Plant prepare their food in form of Carbohydrate

ii. Plant needs CO_2 for the process of Photosynthesis.

Social Science

1. Prepare project report on following topics-

a. Consumer Rights

b. Social issues

c. Sustainable Development

Roll wise project distribution

Roll no. – 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 (Consumer Rights)

Roll no. – 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 (Social Issues)

Roll no. – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

(Sustainable development)

2. Learn the exercise questions of History textbook

L-1 Nationalism in Europe

IT

1. Prepare a portfolio work on Communication Skills – II.